



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 803]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2002/भाद्र 19, 1924

No. 803]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2002/BHADRA 19, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 968(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 739 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दी एंजल्स एजुकेशनल ट्रस्ट, 267, सुलोचना शेटी मार्ग, सायन (पश्चिम) मुम्बई, 400022 द्वारा भवन निर्माण, फिक्सचर/उपस्करों की खरीद, स्कूल की साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी एजेन्स एजुकेशनल ट्रस्ट, 267, सुलोचना शेटी मार्ग, सायन(पश्चिम) मुम्बई, 400022 द्वारा भवन निर्माण, फिक्सचर/उपकरणों की खरीद, स्कूल की साजसज्जा की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़, चार लाख तथा इकहतर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 244-2002/फा.सं.एनसी-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 968(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.739(E) dated the 10th September, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction of building, purchase of fixtures/equipments, furnishing of school by The Angles' Educational Trust, 267, Sulochana Sheti Marg, Sion (W) Mumbai 400 022 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building, purchase of fixtures/equipments, furnishing of school which is being carried out by The Angles' Educational Trust, 267, Sulochana Sheti Marg, Sion (W) Mumbai 400 022 at the estimated cost of rupees three crores four lakhs and seventy one thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 244-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 969(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 388(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु स्पास्टिक सोसायटी , सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन, टी०टी०टी० आई के सामने , तारामणि रोड, चेन्नई, द्वारा तमिलनाडु में मूक बधिरों के शहरी केन्द्रों पर मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्रों के लिए उपस्कर, उनकी साज-सज्जा और संचालन की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 15 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 18 नवम्बर 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 1146(अ०)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 65.67 लाख रूपए से संशोधित करके 126.62 लाख रूपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) स्पास्टिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन, टी०टी०टी० आई के सामने , तारामणि रोड, चेन्नई, द्वारा तमिलनाडु में मूक बधिरों के शहरी केन्द्रों पर मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्रों के लिए उपस्कर, उनकी साज-सज्जा और संचालन की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 388(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 15 के कालम नं० 4 के अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है कि , में अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों “ 65.67 लाख रू०” के स्थान पर अक्षरों आंकड़ों तथा शब्दों में “ 126.52 लाख रू०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 245-2002/फा.सं.एनसी-80/2001]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 969(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997 issued under sub-section(1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 15, for Equipment, furnishing and running of special education centres for spastic children at urban centres of SPASTN in Tamilnadu, by The Spastic Society of Tamil Nadu, Centre for Special Education, Opposite T.T.T.I., Taramani Road, CHENNAI as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1998-1999; which was extended vide notification number S.O.1146(E) dated 18th November, 1999 for a further period of three years beginning with assessment year 2000-2001.

And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.65.67 lakhs to Rs.126.52 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Equipment, furnishing and running of special education centres for spastic children at urban centres of SPASTN in Tamilnadu which is being carried out by The Spastic Society of Tamil Nadu, Centre for Special Education, Opposite T.T.T.I., Taramani Road, CHENNAI as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2003-2004; and
- (b) further amends the said notification number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 15, in column (4) relating to maximum amount of estimated cost to be allowed, for the letters, figures and word "Rs.65.67 lakhs", the letters, figures and word "Rs.126.52 lakhs" shall be substituted.

[No. 245-2002/F. No. NC-80-2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 970(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 549(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने संकर फाउन्डेशन, प्लैट नं० 38, डी० नं० 7-8-23/1(13) महाराजा टावर्स, विशाखापट्टनम -530003 द्वारा विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश में उपस्करों की खरीद तथा अस्पताल परियोजना को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 13 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 30(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1982 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना लागत को 104.51 लाख रुपए से संशोधित करके 364.55 लाख रुपए करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) संकर फाउन्डेशन, प्लैट नं० 38, डी० नं० 7-8-23/1(13) महाराजा टावर्स, विशाखापट्टनम -530003 द्वारा विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश में चलाई जा रही उपस्करों की खरीद तथा अस्पताल परियोजना को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 549(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 13 के कालम नं० (4) जो अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है , में अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों “ 104.51 लाख रु०” के स्थान पर अक्षरों आंकड़ों तथा शब्दों में “ 364.55 लाख रु०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 246-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 970(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 549(E) dated the 2nd July, 1998 issued under sub-section(1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Purchase of equipments and running of hospital projects at Visakhapatnam, Andhara Pradesh, by Sankar Foundation, Flat No.38, D.No.7-8-23/1(13), Maharaja Towers, Visakhapatnam-530 003 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O 30(E) dated 10th January, 2001 for a period of two years beginning with assessment year 2002-2003.

And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the project cost from Rs.104.51 lakhs to Rs.364.55 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Purchase of equipments and running of hospital projects at Visakhapatnam, Andhara Pradesh which is being carried out by Sankar Foundation, Flat No.38, D.No.7-8-23/1(13), Maharaja Towers, Visakhapatnam-530 003 as an eligible project or scheme; and
- (b) further amends the said notification number S.O 549(E) dated the 2nd July, 1998, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial-number 13, in column (4) relating to amount of estimated cost to be allowed, for the letters, figures and word "Rs.104 51 lakhs", the letters, figures and word "Rs.364 55 lakhs" shall be substituted.

[No 246-2002/F. No. NC-80/2002]

G C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 971(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई , 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 422(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री कांची संकरा स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक फाउन्डेशन, श्री संकरादेव नेत्रालय बासैठा चारली, पो० आ० बेलटोला, गुवाहाटी-28 द्वारा गुवाहाटी, असम में संकरादेवा नेत्रालय, चरण-I विस्तार परियोजना के लिए उपस्करों/वाहनों की खरीद, साज-सज्जा तथा भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कांची संकरा स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक फाउन्डेशन, श्री संकरादेव, नेत्रालय बासैठा चारली, पो० आ० बेलटोला, गुवाहाटी-28 द्वारा गुवाहाटी, असम में चलाई जा रही संकरादेवा नेत्रालय, चरण-I विस्तार परियोजना के लिए उपस्करों/वाहनों की खरीद, साज-सज्जा तथा भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र बीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 247-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 971(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S O.422(E) dated the 19th May, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11, for Purchase of equipments/vehicles furnishing and construction of building for Sri Sankara Deva Nethralya, Phase-I Expansion project at Guwahati, Assam; by Sri Kanchi Sankara Health & Educational Foundation, Sri Sankaradeva Nethralaya Basaitha Charali, P.O. Beltola, Guwahati-28. as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Purchase of equipments/vehicles furnishing and construction of building for Sri Sankara Deva Nethralya, Phase-I Expansion project at Guwahati, Assam; which is being carried out by Sri Kanchi Sankara Health & Educational Foundation, Sri Sankaradeva Nethralaya Basaitha Charali, P.O. Beltola, Guwahati-28 at the estimated cost of rupees Twenty Crores Eleven Lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No. 247-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 972(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 676(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वि सोसायटी फार दी मेन्टली रिटार्डिड, पी०डी० मालविया कालिज कैम्पस, गोन्डल रोड, राजकोट 360004(गुजरात) द्वारा राजकोट, गुजरात में चिकित्सा शिक्षा तथा मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु भवन निर्माण, साज-सज्जा, उपस्करों और स्कूल तथा प्रशिक्षण/अनुसंधान केन्द्र चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ख के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वि सोसायटी फार दी मेन्टली रिटार्डिड, पी०डी० मालविया कालिज कैम्पस, गोन्डल रोड, राजकोट 360004(गुजरात) द्वारा राजकोट, गुजरात में चलाई जा रही चिकित्सा शिक्षा तथा मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु भवन निर्माण, साज-सज्जा, उपस्करों और स्कूल तथा प्रशिक्षण/अनुसंधान केन्द्र को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पचास लाख रुपयों की कार्पस निधि सहित एक करोड़, रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 248-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 972(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.676(E) dated the 11th August, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction of building furnishing, equipments and running of school and training/research centres for Medical Education and Training of Mentally Retarded persons at Rajkot, Gujarat; by The Society for the Mentally Retarded, P.D. Malviya College Campus, Gondal Road, Rajkot-360 004 (Gujarat) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction of building furnishing, equipments and running of school and training/research centres for Medical Education and Training of Mentally Retarded persons at Rajkot, Gujarat; which is being carried out by The Society for the Mentally Retarded, P.D. Malviya College Campus, Gondal Road, Rajkot-360 004 (Gujarat) at the estimated cost of rupees One Crore plus a corpus fund of Rs. Fifty lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No 248-2002/E. No. NC-80/2002]

G C. SRIVASTAVA, Secy (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

क्रा. आ. 973(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च , 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 206(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411048 द्वारा 827, भवानी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र में उपस्करों, दर्द निवारक केन्द्र (सतसेवा) को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 20 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 217(अ०) द्वारा आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411048 द्वारा 827, भवानीपेठ, पुणे, महाराष्ट्र में चलाई जा रही उपस्करों, बर्ब निवारक केन्द्र(सतसेवा)को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र छह करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित पन्द्रह लाख, पचास हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 249-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 973(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.206(E) dated the 17th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 20, for Equipments, running of Pain Relief Centre (SATSEVA) at 827, Bhavani Peth, Pune, Maharashtra by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune, Maharashtra-411048 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.217(E) dated 1st April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Equipments, running of Pain Relief Centre (SATSEVA) at 827, Bhavani Peth, Pune, Maharashtra; which is being carried out by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune, Maharashtra-411048 at the estimated cost of rupees fifteen lakhs fifty thousand plus a corpus fund of rupees six crores only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 249-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 974(अ).—/जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 164 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्वर्गीय भवसार देवचन्द भाई मुलजीभाई तालाजिया द्वारा भावनगर गुजरात में मंदबुद्धि बच्चों के लिए भवन निर्माण, साजसज्जा, उपस्करों, स्कूल बस की खरीद और अंकुर स्कूल को चलाने के तथा प्लॉट नं० 1 945, सरदार नगर सर्किल, निकट वर्किंग वीमन्स हॉस्टल, सरदार नगर, भावनगर- 364002(गुजरात) में मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्वर्गीय भवसार खामालक्ष्मी देवचन्दभाई तालाजिया अंकुर स्कूल को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 20 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वर्गीय भवसार देवचन्द भाई मुलजीभाई तालाजिया द्वारा भावनगर गुजरात में मंदबुद्धि बच्चों के लिए भवन निर्माण, साजसज्जा, उपस्करों स्कूल बस की खरीद और अंकुर स्कूल को चलाने तथा प्लॉट नं० 1945, सरदार नगर सर्किल, निकट वर्किंग वीमन्स हॉस्टल, सरदार नगर, भावनगर- 364002(गुजरात) में मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्वर्गीय भवसार खामालक्ष्मी देवचन्दभाई तालाजिया अंकुर स्कूल को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़, उन्नीस लाख तथा इक्यासी हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 250-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 974(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.154(E) dated the 23rd February, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Construction of building, furnishing, purchase of equipments, school bus and running of Ankur School for the Mentally Retarded Children at Bhavnagar, Gujarat, by Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya and Deseased Bhavsar Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya Ankur School for Mentally Retarded Children, Plot No.1945, Sardarnagar Circle, Near Working Women's Hostel, Sardarnagar, Bhavnagar-364002 (Gujarat) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction of building, furnishing, purchase of equipments, school bus and running of Ankur School for the Mentally Retarded Children at Bhavnagar, Gujarat; which is being carried out by Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya and Deceased Bhavsar Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya Ankur School for Mentally Retarded Children, Plot No.1945, Sardarnagar Circle, Near Working Women's Hostel, Sardarnagar, Bhavnagar-364002 (Gujarat), at the estimated cost of rupees one crore nineteen lakhs and eighty one thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 250-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 975(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 1140(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीकाकुलम गोयाधिकुला संघम, (श्री काकुलम एल्डर्स एसोसिएशन) डी सं० 7-6-44 बुरावरी थोटा, श्रीकाकुलम, आन्ध्रप्रदेश-532001 द्वारा श्रीकाकुलम परिसर, आन्ध्रप्रदेश में वृद्धाश्रम के भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 क के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीकाकुलम गोयाधिकुला संघम, (श्री काकुलम एल्डर्स एसोसिएशन) डी सं० 7-6-44 बुरावरी थोटा, श्रीकाकुलम, आन्ध्रप्रदेश-532001 द्वारा श्रीकाकुलम परिसर, आन्ध्रप्रदेश में वृद्धाश्रम के भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तेइस लाख तिरानबे हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 251-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 975(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.1140(E) dated the 18th November, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for Construction of building for old age home complex at Srikakulam, Andhra Pradesh, by Srikakulam Voyadhikula Sangham, (Srikakulam Elders Association), D.No.7-6-44, Burravari Thota, Srikakulam, Andhra Pradesh-532001 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction of building for old age home complex at Srikakulam, Andhra Pradesh; which is being carried out by Srikakulam Voyadhikula Sangham, (Srikakulam Elders Association), D.No.7-6-44, Burravari Thota, Srikakulam, Andhra Pradesh-532001, at the estimated cost of rupees twenty three lakhs and ninety three thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 251-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 976(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सा० आ० 92(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दा लेपरोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, दा लेपरोसी मिशन, सी एन आई भवन, 16, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-10001 द्वारा दा कुष्ठ मिशन हस्पताल की सहायता को एक परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सा० आ० 320(अ०) द्वारा आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दा लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, दा लेप्रोसी मिशन, सी एन आई भवन, 16, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा चलाए जा रहे कुष्ठ मिशन हस्पताल की सहायता के लिए परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र बासठ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 252-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 976(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Supporting the Leprosy Mission Hospitals, by The Leprosy Mission Trust India, The Leprosy Mission, CNI Bhavan, 16, Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.320(E) dated 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Supporting the Leprosy Mission Hospitals; which is being carried out by The Leprosy Mission Trust India, The Leprosy Mission, CNI Bhavan, 16, Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001, at the estimated cost of rupees sixty two lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No. 252-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का.आ. 977(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सा० आ० 413(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लालाराम गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट, 4341, विजय नगर कॉलोनी, आगरा-282004 द्वारा आगरा में एक खेल कूद केन्द्र और गरीब ग्रामीण और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक स्कूल के निर्माण और चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 26 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 415 (अ०) द्वारा आगे बढ़ाया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लालाराम गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट, 4341, विजय नगर कॉलोनी, आगरा-282004 द्वारा आगरा में चलाए जा रहे एक खेल कूद केन्द्र और गरीब ग्रामीण और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक स्कूल के निर्माण और चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ पचपन लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 253-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 977(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.413(E) dated the 7th June, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Construction and running of a school for economically weaker sections of the society and rural poor and a sports centre at Agra, by Lalaram Gupta Charitable Trust, 4341, Vijay Nagar Colony, Agra-282004 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.415(E) dated 26th April, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction and running of a school for economically weaker sections of the society and rural poor and a sports centre at Agra; which is being carried out by Lalaram Gupta Charitable Trust, 4341, Vijay Nagar Colony, Agra-282004, at the estimated cost of rupees one crore fifty five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 253-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 978(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 832(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात कैंसर वारदी सेवा ट्रस्ट, गोल्डन ट्राएंगल, 501, पांचवीं मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380014 द्वारा गुजरात, अहमदाबाद में कैंसर मरीजों के लिए वाहनों की खरीद और चिकित्सा सेवा को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात कैंसर वारदी सेवा ट्रस्ट, गोल्डन ट्राएंगल, 501, पांचवीं मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380014 द्वारा चलाए जा रही गुजरात, अहमदाबाद में कैंसर मरीजों के लिए वाहनों की खरीद और चिकित्सा सेवा को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए इक्कीस लाख पचास हजार रुपये की कार्पस निधि सहित मात्र पच्चीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 254-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 978(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.832(E) dated the 18th September, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, for Purchase of vehicles and running of medical services for cancer patients at Ahmedabad, Gujarat, by Gujarat Cancer Dardi Seva Trust, Golden Triangle, 501, 5th Floor, Navrangpura, Ahmedabad-380014 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Purchase of vehicles and running of medical services for cancer patients at Ahmedabad, Gujarat; which is being carried out by Gujarat Cancer Dardi Seva Trust, Golden Triangle, 501, 5th Floor, Navrangpura, Ahmedabad-380014, at the estimated cost of rupees twenty one lakhs and fifty thousand plus a corpus fund of rupees twenty five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No. 254-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTA 'A', Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 979(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 366(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने चिल्ड्रेन वल्फेयर सेंटर, दूसरी बुद्ध लेन, वरसोवा, मुम्बई-400061 द्वारा मुम्बई, वरसोवा, यारी रोड, पर चिल्ड्रेन वल्फेयर सेंटर (फेस-II) की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिल्ड्रेन वल्फेयर सेंटर, दूसरी बुद्ध लेन, वरसोवा, मुम्बई-400061 द्वारा चलाए जा रही मुम्बई, वरसोवा, यारी रोड. पर चिल्ड्रेन वल्फेयर सेंटर(फेस-II) की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए बंद करोड. सत्ताईस लाख उनसठ हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 255-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 979(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.366(E) dated the 10th April, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Construction of school building (Phase-II) of Children Welfare Centre at Yari Road, Versova, Mumbai, by Children Welfare Centre, 2nd Buddha Lane, Versova, Mumbai-400061 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction of school building (Phase-II) of Children Welfare Centre at Yari Road, Versova, Mumbai; which is being carried out by Children Welfare Centre, 2nd Buddha Lane, Versova, Mumbai-400061, at the estimated cost of rupees two crores twenty seven lakhs and fifty nine thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 255-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 980(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की बिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 154(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डा० निहार मुंशी आई फाउन्डेशन, 1/3, डोवर प्लेस, कलकत्ता 700019 द्वारा पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में सामुदायिक नेत्र चिकित्सा केन्द्र की स्थापना, परिसर, उपस्करों और उपकरणों की खरीद की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा० निहार मुंशी आई फाउन्डेशन, 1/3, डोवर प्लेस, कलकत्ता 700019 द्वारा चलाए जा रही पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में सामुदायिक नेत्र चिकित्सा केन्द्र की स्थापना, परिसर, उपस्करों और उपकरणों की खरीद की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक करोड़ बानवे लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 256-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 980(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.154(E) dated the 23rd February, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, for Setting up of Community Ophthalmology Centre, purchase of premises, equipments and instruments at Calcutta, West Bengal, by Dr. Nihar Munshi Eye Foundation, 1/3, Dover Place, Calcutta-700019 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Setting up of Community Ophthalmology Centre, purchase of premises, equipments and instruments at Calcutta, West Bengal; which is being carried out by Dr. Nihar Munshi Eye Foundation, 1/3, Dover Place, Calcutta-700019, at the estimated cost of rupees one crores ninety two lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 256-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 981(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 366(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कनोरिया सेवा केन्द्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा गांधी नगर गुजरात में कनोरिया अस्पताल और रिसर्च सेन्टर को चलाने, विस्तारित भवन के निर्माण, उपस्करों/उपकरणों, मोबाइल वैन की खरीद तथा साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कनोरिया सेवा केन्द्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा गांधी नगर गुजरात में कनोरिया अस्पताल और रिसर्च सेन्टर को चलाने, विस्तारित भवन के निर्माण, उपस्करों/उपकरणों, मोबाइल वैन की खरीद तथा साजसज्जा की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ इकसठ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 257-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 981(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.366(E) dated the 10th April, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for Construction of Extension building, purchase of equipments/instruments, mobile van, furnishing and running of Knoria Hospital and Research Centre at Gandhi Nagar, Gujarat, by Kanoria Seva Kendra, 307, Abhijeet Netaji Marg, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Construction of Extension building, purchase of equipments/instruments, mobile van, furnishing and running of Knoria Hospital and Research Centre at Gandhi Nagar, Gujarat; which is being carried out by, Kanoria Seva Kendra, 307, Abhijeet Netaji Marg, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat at the estimated cost of rupees one crores sixtyone lakhs and eighty one thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 257-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

क्रा. आ. 982(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सा० आ० 973(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-19, नोएडा, द्वारा नोएडा में मुफ्त चिकित्सा सहायता सेवा को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 13 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 212(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से और तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-19, नोएडा, द्वारा नोएडा में मुफ्त चिकित्सा सहायता सेवा को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पित्तहत्तर लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 258-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 982(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.973(E) dated the 14th December, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Running of free medical aid services at NOIDA; by Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.212(E) dated 16th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Running of free medical aid services at NOIDA; which is being carried out by Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA, at the estimated cost of rupees seventy five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003-2004.

[No. 258-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 983(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 8 अगस्त, 1995 की अधिसूचना सं० सा० आ० 713(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पूना ब्लाइंड मैनस एसोशिएशन 82, रास्ता पेट, पुणे-411011, महाराष्ट्र द्वारा मोहम्मदवाडी हदपसर, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में पूना ब्लाइंड मैनस एसोशिएशन के 50 बिस्तरों वाले नेत्र चिकित्सालय की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 18 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 713(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है; और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूना ब्लाइंड मैन एसोशिएशन 82, रास्ता पेट, पुणे-411011, महाराष्ट्र द्वारा मोहम्मदवाडी हदपसर, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में पूना ब्लाइंड मैनस एसोशिएशन के 50 बिस्तरों वाले नेत्र चिकित्सालय की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र छह सौ साठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 259-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 983(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.713(E) dated the 8th August, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for The Poona Blind Men's Association 50 bed eye hospital at Mohammedwadi, Off Hadapsar, Taluk Haveli, District Pune, Maharashtra, by The Poona Blind Men's Association, 82, Rasta Peth, Pune-411011, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.836(E) dated 18th September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, The Poona Blind Mens's Association 50 bed eye hospital at Mohammedwadi, Off Hadapsar, Taluk Haveli, District Pune, Maharashtra; which is being carried out by The Poona Blind Men's Association, 82, Rasta Peth, Pune-411011, Maharashtra; at the estimated cost of rupees six hundred sixty eight lakhs seventy thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No 259-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 984(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं० सा० आ० 602(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने युसूफ मेहाराली सेन्टर, नेशनल हाऊस 6, तुलोच रोड, अपोलो बन्दर, मुम्बई-400039 द्वारा कोंकण क्षेत्र और जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के पनवेल और पेन तालुका के गांवों के एकीकृत विकास तथा वाटरशेड विकास उन्नयन परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 7 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सा० आ० 416(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 और दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 505(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युसूफ मेहाराली सेन्टर, नेशनल हाऊस 6, तुलोच रोड, अपोलो बन्दर, मुम्बई-400039 द्वारा कोंकण क्षेत्र और जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के पनवेल और पेन तालुका के गांवों के एकीकृत विकास तथा वाटरशेड विकास उन्नयन परियोजना या स्कीम को परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़, बाइस लाख, पचास हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 260-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 984(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8. for Promotion of watershed development in Konkan region and integrated development of villages in Panvel and Pen talukas of District Raigad, Maharashtra, by Yusuf Meharally Centre, National House, 6, Tulloch Road, Appollo Bunder, Bombay-400 039 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O.415(E) dated 7th June, 1996 for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 and which was extended further vide Notification No S.O.505(E) dated 26th May 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001,

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Promotion of watershed development in Konkan region and integrated development of villages in Panvel and Pen talukas of District Raigad, Maharashtra; which is being carried out by Yusuf Meharally Centre, National House, 6, Tulloch Road, Appollo Bunder, Bombay-400 039, Maharashtra; at the estimated cost of rupees three crore twenty-two lakhs fifty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2003-2004.

[No. 260-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का. आ. 985(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 206 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने महारोगी सेवा समिति, डाकखाना आनंदवन, तालुका वशेरा, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर, चन्द्रपुर और गढ़चिरोली में महारोगी सेवा समिति द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन व्यय की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 214(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ वाले वर्ष से तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

28520102-4

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महारोगी सेवा समिति, डाकखाना आनंदवन, तालुका वरोरा, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर, चन्द्रपुर और गदचिरोली में महारोगी सेवा समिति द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन व्यय की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पांच करोड़ आठ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 261-2002/फा.सं.एन.सी.- 80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 985(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.206(E) dated the 17th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Running expenses for welfare activities of Maharogi Sewa Samiti at Nagpur, Chandrapur, and Godchiroli in Maharashtra, by Maharogi Sewa Samiti, P.O.Anandwal, Tal. Warora, Distt. Chandrapur, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.214(E) dated 1st April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of, Running expenses for welfare activities of Maharogi Sewa Samiti at Nagpur, Chandrapur, and Godchiroli in Maharashtra; which is being carried out by Maharogi Sewa Samiti, P.O.Anandwal, Tal. Warora, Distt. Chandrapur, Maharashtra ; at the estimated cost of rupees five crore eight lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2003-2004.

[No. 261-2002/E No NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

का.आ. 986(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 228(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवा- ग्रामीण(सोसायटी फार एजुकेशन वेलफेयर एण्ड एक्शन रूल) डाकखाना झगडिया, जिला भरुच-393110 द्वारा स्वास्थ्य और ग्रामीण गरीबों और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, और गरीबी उन्नयन के लिए 15 से 35 वर्ष के बीच की आयु के आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए, आय सृजन गतिविधियां, गरीबी उन्नयन और ग्रामीण गरीबों की सहायता के लिए कम कीमत के मकानों के निर्माण हेतु ग्रामोद्योग संवर्धन(कुटीर उद्योगों) के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1993-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 403(अ०)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, और फिर जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 748 (अ०)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे की तीन वर्षों तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 418.50 लाख रुपये से संशोधित करके 100.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 518.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है.

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) सेवा- ग्रामीण(सोसायटी फार एजुकेशन वेलफेयर एण्ड एक्शन रूल) पो० आ० झगडिया, जिला भरुच-393110 द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास के द्वारा स्वास्थ्य और ग्रामीण गरीबों आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और 15 से 35 वर्ष आयु के आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्नयन, आय सृजन गतिविधियां, महिलाओं का विकास, ग्रामोद्योग संवर्धन(कुटीर उद्योग) गरीबी उन्नयन और ग्रामीण गरीबों की सहायता के लिए कम कीमत के मकानों का निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले आगे की तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) इसके अतिरिक्त दिनांक 17 मार्च, 1994 की कथित अधिसूचना सं० सां० आ० 228(अ०) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

कथित अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० ६ के सामने कालम नं० ४ जो अनुज्ञप्त की गई अधिकतम लागत से संबंधित है, में अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों “ 418.50 लाख रु०” के स्थान पर अक्षरों आंकड़ों तथा शब्दों में “ 100 लाख रु० की कार्पस निधि सहित 518.50 लाख रु०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 262-2002/फा.सं.एन.सी.-80/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

S.O. 986(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age of 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of women, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses, by SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O.403(E) dated 6th June, 1996 for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 and which was extended further vide Notification No.S.O.748(E) dated 10th September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.418.50 lakhs to Rs.518.50 lakhs including a corpus fund of Rs.100.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of, Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age of 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of women, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses; which is being carried out by SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110; as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2003-2004; and

- (b) further amends the said notification number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against Serial number 6, in column (4) relating to maximum cost for which allowed, for the letters, figures and word "Rs.418.50 lakhs, the letters, figures and word "Rs.518.50 lakhs including a corpus fund of Rs.100.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 262-2002/F. No. NC-80/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

